

वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती थी जो **विद्यारंभ** संस्कार के साथ होती थी इस समय पर बच्चे की आयु 5 वर्ष होती थी

वैदिक काल में उच्च शिक्षा **उपनयन** संस्कार के साथ होती थी जिसमें बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था

वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर होने वाले संस्कार को **समावर्तन** संस्कार कहते हैं

वैदिक काल में **तक्षशिला**, मिथिला, प्रयाग, काशी और कांची यह सभी शिक्षण केंद्र थे बौद्धकालीन शिक्षा 500 से 1200 ई० तक चली

बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और उच्च शिक्षा का शुल्क लिया जाता था

प्राथमिक शिक्षा मठों में और उच्च शिक्षा विहार में दी जाती थी

मठों में प्रवेश करने के लिए छात्रों की आयु 6 वर्ष होती थी जिसमें प्रवेश लेने के लिए **पबज्जा संस्कार** होता था

**उपसंपदा संस्कार** भिक्षु शिक्षा में दिया जाता था जो बौद्ध काल में 8 वर्ष की अवधि की शिक्षा थी

बौद्ध काल में नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी मुख्य शिक्षण केंद्र थे

मध्यकाल को मुस्लिम काल भी कहा जाता है इस काल में प्राथमिक शिक्षा मकतब में तथा उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी

प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए **बिस्मिल्लाह खान रसम** होती थी प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्र की आयु **4 वर्ष 4 माह 4 दिन** की होती थी

मकतब शब्द **कुतुब** से बना है जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है मदरसा शब्द **दरस** से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना

मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र फिरोजाबाद बदायूं जौनपुर और बीदर थे जौनपुर को शिराज ई हिंद भी कहा जाता है

मैकाले विवरण पत्र 1835 में आया

लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था

निस्पंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी उच्च वर्ग को शिक्षा देने से संबंधित थी निम्न वर्ग को शिक्षा देने से संबंधित नहीं थी

मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया

वुड घोषणा पत्र **1854** में आया इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर सोपा

जन शिक्षा विभाग की स्थापना वुड के घोषणा पत्र द्वारा की गई

**क्रमबद्ध** विद्यालयों की स्थापना वुड घोषणा पत्र द्वारा की गई

वुड घोषणा पत्र द्वारा प्राथमिक शिक्षा को देसी भाषाओं में और उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को केवल अंग्रेजी भाषा में चलाने की सिफारिश की गई

भारत में आधुनिक तरह के विश्वविद्यालय वुड के घोषणा पत्र द्वारा ही खोले गए सबसे **पहला विश्वविद्यालय 1857** में **कोलकाता** में एवं इसके बाद मुंबई एवं मद्रास में कविश्वविद्यालय खोले गए

भारत में पहली बार व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी वुड ने दिया

भारत में सर्वप्रथम **शिक्षक प्रशिक्षण** महाविद्यालय खोलने की सिफारिश भी वुड के घोषणा पत्र में की गई

वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का **महाअधिकार** पत्र भी कहा जाता है

भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन या हंटर आयोग भी कहते हैं

आयोग के कुल 20 सदस्यों में 7 सदस्य भारतीय थे

आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार **स्थानीय निकायों** को सौंपने की सिफारिश की

हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अ एवं ब दो भागों में बांटा

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के मध्यम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया इसे रेले कमीशन भी कहा जाता है इसमें कुल 2 भारतीय सदस्य शामिल थे

लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय शिक्षा विभाग एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की

लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में प्रसार पर रोक एवं गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया

**गोखले बिल 1911** में आया इसने **सर्वप्रथम** भारत में 6 से 10 आयु तक के बच्चों के लिए **निशुल्क** एवं **अनिवार्य** शिक्षा की सिफारिश की

कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को सैंडलर आयोग भी कहा जाता है जो 1917 में बना तथा अपनी रिपोर्ट 1919 में प्रस्तुत की यह आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित था

हर्टाग समिति 1927 से 1929 तक थी इसने सर्वप्रथम शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान दिया

अपव्यय का अर्थ है किसी छात्र की शिक्षा को पूरी किए बिना बीच में ही छोड़ देना

अवरोध का अर्थ है छात्र का एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना यानी पाठ्यक्रम का निर्धारित समय में पूरा न करना

बेसिक शिक्षा 1937 में गांधी जी द्वारा दी गई बेसिक शिक्षा के सात मूलभूत सिद्धांत थे जिनमें 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का सबसे मुख्य प्रावधान था

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बताया गया तथा अंग्रेजी भाषा को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात जीविकोपार्जन बनाने की बात कही गई

बेसिक शिक्षा हस्त कौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत दिया गया

सार्जेंट योजना 1944 में आई जो आगामी 40 वर्षों की शिक्षा से संबंधित थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट योजना द्वारा दिया गया